

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904
No. 99] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

सं. 94/82-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 275(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4-सीमा शुल्क, तारीख 19 जनवरी, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 मार्च, 1982” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 अप्रैल 1983” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 355/10/82-सीमाशुल्क-1]

के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1982

No. 94/82-CUSTOMS

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4-Customs, dated the 19th January, 1980, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words “31st day of March, 1982” the figures, letters and words “30th April, 1983” shall be substituted.

[F. No. 355/10/82-Cust-1]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.